

दबिांग जल वदियुत परयोजना

प्रलिमिंस के लयि:

दबिांग जल-वदियुत परयोजना, वन सलाहकार समति।

मेन्स के लयि:

पर्यावरण की वृद्धि और वकिसा, NGT ।

चरचा में क्यौं?

हाल ही में [राष्ट्रीय हरति अधकिरण \(NGT\)](#) ने राष्ट्रीय उद्यान घोषति करने की पूरव शरत को पूरा कयि बनिा 3000 मेगावाट की दबिांग जल-वदियुत परयोजना के लयि वन मंजूरी देने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को खारजि कर दयिा है ।

- राष्ट्रीय हरति अधकिरण ने ऐसा नरिणय अरुणाचल प्रदेश की इस सूचना के आधार पर लयिा जसिमें कहा गया था कि स्थानीय लोग राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के लयि अपनी ज़मीन को बाँटने के इच्छुक नहीं हैं ।

प्रमुख बदि

- यह बाढ़ नरिंत्रण सह **जल-वदियुत परयोजना** है जसि अरुणाचल प्रदेश में **ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक** नदी दबिांग नदी पर वकिसति करने की योजना है ।
- यह बाँध **आशु पानी और दबिांग नदियौं** के संगम से लगभग 1.5 कमी ऊपर तथा रोइंग, जलिा मुखयालय से लगभग 43 कमी दूर स्थति है ।
- इस परयोजना से मानसून अवधि के दौरान दबिांग बाँध के नीचे के कषेत्रों में 3000 क्यूमेक्स की सीमा तक बाढ़ में कमी आएगी ।
- इस परयोजना को लगभग 4 बलियिन अमेरिकी डॉलर से वकिसति कयिा जाएगा ।
- दबिांग जल-वदियुत परयोजना से प्रतविर्ष 11,222 मलियिन यूनटि (MU) बजिली उत्पन्न होने की संभावना है ।



राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT):

- यह पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र नपिटान हेतु **राष्ट्रीय हरति अधिकरण अधिनियम (2010)** के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया और साथ ही वह ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश भी है।
- 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' को आवेदनों या अपीलों के दाखिल होने के **6 महीने के भीतर अंतिम रूप** से उनका नपिटान करना अनिवार्य है।
- NGT का मुख्यालय **दिल्ली** में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय **भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई** में स्थित हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी/नदियाँ है/हैं? (2016)

1. दबिांग
2. कामेंग
3. लोहति

नीचे दयि गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- ब्रह्मपुत्र बेसनि तबिबत (चीन), भूटान, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नगालैंड और सकिकमि राज्यों में फैला हुआ है।
- ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से कोंगुत्शो झील के दक्षिण में 5,150 मीटर की ऊँचाई से नकिलती है और लगभग 2,900 कमी तक प्रवाहति होती है। यह नामचा बरवा (अरुणाचल प्रदेश) में भारत में प्रवेश करती है और 916 कमी तक प्रवाहति होती है।
- दाहनी ओर से मलिने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कामेंग, सुबनसरि, मानस, संकोश और तीस्ता हैं, जबकि लोहति, दबिांग, बूढी दहिगि, देसांग, दखिो, धनसरि बाई ओर से इसमें मलिती हैं। **अतः 1, 2 और 3 सही हैं।**
- **अतः वकिल्प (d) सही उत्तर है।**

प्रश्न. रन-ऑफ-रविर जलवदियुत परयोजना से आप क्या समझते हैं? यह कसी अनय जलवदियुत परयोजना से कसि प्रकार भन्नि है? (2013)

प्रश्न. मान लीजयि कि भारत सरकार जंगलों से घरि और जातीय समुदायों द्वारा बसी हुई पहाड़ी घाटी में एक बाँध बनाने की योजना बना रही है। अप्रत्याशति आकस्मकित्ताओं से नपिटने के लयि उसे कसि तर्कसंगत नीतिका सहारा लेना चाहयि? (2018)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस